



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1979/भाद्र 16, 1901

No. 185]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1979/BHADRA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राजिष्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहायता मंत्रालय

(राजिष्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 48-आईटीसी (पी एन)/79

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 सितम्बर 1979

विषय:— 1979-80 के लिए आयात नीति।

सि० सं० आई पी सी 3/46/79— राजिष्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं०, 25-आई टी सी (पी एन)/79, दिनांक 3 मई, 1979 के अधीन प्रकाशित तथा संशोधित ग्रन्थ, 1979-मार्च, 1980 की आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे प्रत्येक के सामने संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

क्रम सं०	नीति पुस्तक की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	118-119	परिशिष्ट-17 क्रम सं० क 82 कालम 4	(1) मद (छ) के विवरण को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए:— “(छ) कायल/कटिस्त में कार्बन इस्पान शीट्स/स्ट्रिप्स।”

1	2	3	4
			(2) मद (का) के सामने मुख्य सीमा को “(5 प्रतिशत)” से बढ़ाकर “(2½)” किया जाएगा।
2.	119	परिशिष्ट 17 क्रम सं० क-85 कालम 4	मद (क) के सामने मुख्य सीमा को “(10 प्रतिशत)” से बढ़ाकर “(5 प्रतिशत)” किया जाएगा।
3.	119	परिशिष्ट-17 क्रम सं० क-94 कालम 4	मद (ग) के सामने “(30 प्रतिशत)” की मुख्य सीमा को जोड़ा जाएगा।
4.	122	परिशिष्ट 17 क्रम सं०, ख 16.1 तथा ख, 16.2 कालम 4	मद (घ) के सामने मुख्य सीमा को (10 प्रतिशत) से बढ़ाकर (5 प्रतिशत) किया जाएगा।
5.	123	परिशिष्ट 17 क्रम सं० बी, 20.1 कालम 4	निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाएगा:— (म) फोबोरिक्लेस बस्तु/रिजिनायडस का मिश्रण (10 प्रतिशत) (य) पैक करने का सामान (10 प्रतिशत)

1	2	3	4	1	2	3	4
6. 125	परिशिष्ट 17 क्रम सं० बी, 47 कालम 4	मद (ख) के सामने (50 प्रतिशत) की मूल्य सीमा को जोड़ा जाएगा				(3) कालम 5 में निम्नलिखित और टिप्पणियां जोड़ी जाएंगी:— “(2) इस क्रम सं०, के अन्तर्गत मन ग्लासेस के निर्यात के मद्दे ग्लेयर ग्लासेस की अनुमति लाइसेंस के संपूर्ण मूल्य के भीतर दी जाएगी।	
7. 127	परिशिष्ट 17 क्रम सं० ख, 67 कालम 4	आयात प्रतिपूर्ति की दर को “(10 प्रतिशत)” से घटा कर “(5 प्रतिशत)” किया जाएगा।				(3) इस क्रम संख्या के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यातक आरक्षणी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आपको या तो रसायन तथा संबंध उत्पाद निर्यात संबंधन परिषद् के पास या लिनोलियम निर्यात संव- र्धन के पास पंजीकृत करवा सकते हैं।”	
8. 127	परिशिष्ट 17 क्रम सं०, ख 70.1 कालम 4	निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “(छ) साइकल ट्यूब वाल्व (10 प्रतिशत)”					
9. 128	परिशिष्ट 17 क्रम सं०, ख, 71 (1) कालम 4 एवं 4	(1) कालम 3 में आयात प्रतिपूर्ति की दर 30 प्रतिशत को घटा कर 15 प्रतिशत किया जाएगा। (2) कालम 4 में मद (घ) को हटा दिया जाएगा।					
10. 129	परिशिष्ट 17 क्रम सं० ग-7 कालम 2	निर्यात उत्पाद को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए:— “फाउन्टेन/बाल प्वाइन्ट पैन, बाल प्वाइन्ट रिफिल्स, हस्ताक्षर पैन, फाइबर के टिप वाले पैन (सभी प्रकार) साइको के टिप वाले पैन, रोलिंग राइटर पैन और उस के पुर्जे और फाउन्टेन पैन की निबों (जंगबरोधी) इस्पात की फाउन्टेन पैन की निबों सहित) एवं फिल्टर और टिप्स फाउन्टेन पैन के फिल्टर और टिप्स को छोड़कर)।”		13. 136	परिशिष्ट 17 क्रम सं० य-1 कालम 4	मद (ट) के सामने मूल्य, सीमा को (25 प्रतिशत) से घट कर “(12-1/2)” किया जाएगा।	
				14. 139-140	परिशिष्ट-17 क्रम सं० म-1 कालम 4	मद (ख) (7) के सामने मूल्य सीमा को “(10 प्रतिशत)” से घटा कर “(5 प्रतिशत)” किया जाएगा।	
				15. 161	परिशिष्ट-19 के लिए अनुबन्ध- 3	वर्तमान भाग 2 के नीचे टिप्पणी को “(1)” संख्या दी जाएगी और निम्नलिखित की टिप्पणी “(2)” के रूप में जोड़ा जाएगा:— “(2) रसायन उद्योग के मामले में प्रमाण-पत्र संयुक्त रूप से मुख्य कैमिस्ट/आवेदक के रसायन इन्जी- नियर और न सनदी लेखा पाल या लागत लेखा पाल द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है।”	
11. 130	परिशिष्ट 17 क्रम सं० ग-12 कालम 3 एवं 4	(1) कालम 3 में आयात प्रति- पूर्ति की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत किया जाएगा। (2) कालम 4 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:— (1) निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा:— “(छ) मेट्रिसेज।” (2) मद (ग) के सामने की मूल्य सीमा को “(20 प्रतिशत)” से घटा कर “(10 प्रति- शत)” पढ़ा जाएगा। (3) मद (घ) के सामने “(10 प्रतिशत)” मूल्य सीमा को जोड़ा जाएगा।		16. 181-182	परिशिष्ट-28	(1) पैरा 6 में, पहली पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “प्राधिकृत व्यापारी (बैंक) के माध्यम से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा में किए गए अग्रिम भुगतान के मद्दे किए गए निर्यात भी इस योजना के अन्तर्गत आएंगे।”	
12. 131	परिशिष्ट 17 क्रम सं०, ग-14 कालम 4 एवं 5	(1) कालम 4 में “(40 प्रतिशत)” की मूल्य सीमा को बढ़ा कर “(50 प्रतिशत)” किया जाएगा। (2) कालम 4 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “(घ) सीए ऑफ कट्स।”				(2) पैरा 17 में तीसरी पंक्ति में, “शुरू करने” शब्द के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— “अथवा लवान की तिथि से जहां माल अग्रिम भुगतान के मद्दे माल का संभरण किया जाता है।”	

3. परिशिष्ट 17 में किए गए संशोधन 1-4-79 को इसके बाद किए गए निर्यातों के लिए लागू होंगे किन्तु इन में उन मदों के साथ पहले से ही जारी किए गए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मामले शामिल नहीं होंगे जो कालम 4 से हटा दी गई हैं या जिनके संबंध में मूल्य सीमा को बढ़ा दिया गया है।

4. निम्नलिखित और प्रशुद्धियां नीचे दिए गए उपयुक्त स्थानों पर की जाएं:—

क्रम सं०

[सार्वजनिक

4

सूचना सं०

35—आई

टी सी (पी

एन)/79 नोति पुस्तक

दिनांक 197-80 संवर्ष

प्रशुद्धियां

15-6-1979 की पृष्ठ सं०

के क्रम में] 66

1	2	3	4
111	26	अध्याय 17, पैरा 145	पहली पंक्ति में शब्द "और कोष्ठक" "(प्रौद्योगिक)" हटा दिया जाएगा।
112	42	परिशिष्ट 2, भाग "क", (1) मशीनों के औजार प्रविष्टि सं०, 36, अर्थात् "स्प्रिंग और पीसने की मशीन।"	ब्योरे में शब्द "और" को "अन" के रूप में पढ़ा जाएगा।
113	42	परिशिष्ट 2 भाग 'क' (1) मशीन औजार प्रविष्टि सं० 45, अर्थात् प्राटोमेटिक मशीन स्टे शन बेल्ट/नट धातु की मशीन	विवरण में शब्द "बेल्ट" को "बोलेट" के रूप में पढ़ा जाएगा।
114	53	परिशिष्ट 3 इस प्रविष्टि को ठीक कर "(हाइ-प्रविष्टि सं०, 257 क्रोक्सी साइड्रोमल)" के रूप में पढ़ा जाए।	
115	81	परिशिष्ट 5 वर्तमान ब्योरे को निम्न प्रकार से प्रविष्टि सं० 460 पढ़ा जाएगा:— (13) "फेलेट कैपेडरिंग मशीन/शिफिंग रेंज के लिए ऊर्जा फेलेट।"	
116	123	परिशिष्ट 17 मद (क) को ठीक कर "हाइड्रोक्सी क्रम सं० ख 20.1 साइड्रोमल" के रूप में पढ़ा जाएगा। कालम 4	
117	123	परिशिष्ट 17 मद (ख) को ठीक कर "हाइ-क्रम सं० ख-20.9 क्रोक्सी साइड्रोमल" के रूप में पढ़ा जाए। कालम 4	
118	131	परिशिष्ट 17 मद के ब्योरे को "सोडियम बाइ-क्रम सं० घ 1.4 सल्फाइड" के रूप में पढ़ा जाएगा। कालम 4, मद (1)	

सी० अंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

MINISTRY OF COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 48-ITC(PN)/79

New Delhi, the 7th Septemb, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

Subject: Import Policy for 1979-80.

F.No. IPC/3/46/79.—Attention is invited to Import Policy for April, 1979—March, 1980 published under the Department of Commerce Public Notice No. 25-ITC(PN)/79, dated the 3rd May, 1979, as amended.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places indicated against each:—

Sl. No. of Policy	Page No. of Policy Book, 1979-80	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	118-119	Appendix 17 Sl. No. A. 82 Col. 4	(i) The description of item (g) shall be amended to read as under:— "(g) Carbon steel Sheets/ Strips in Coils/Cuttings." (ii) The value limit against item (j) shall be reduced from "5%" to "(2½%)".
2.	119	Appendix 17 Sl. No. A. 85 Col. 4	The value limit against item (c) shall be reduced from "(10%)" to "(5%)".
3.	119	Appendix 17 Sl. No. A. 94 Col. 4	Against item (c), value limit of "(50%)" shall be inserted.
4.	112	Appendix 17 Sl. No. B. 16.1 and B. 16.2 Col. 4	Against item (o) the value limit shall be reduced from "(10%)" to "(5%)".
5.	123	Appendix 17 Sl. No. B. 20.1 Col. 4	The following items shall be added:— "(m) Mixtures of Odoriferous substances/resinoids (10%). (n) Packing material (10%)".
6.	125	Appendix 17 Sl. No. B. 47 Col. 4	Against item (b), value limit of "(50%)" shall be inserted.
7.	127	Appendix 17 Sl. No. B. 67 Cl. 3	The rate of import replenishment shall be reduced from "(10%)" to "(5%)".
8.	127	Appendix 17 Sl. No. B. 70.1 Col. 4	The following item shall be added:— "(g) Cycle tube valves (10%)".
9.	128	Appendix 17 Sl. No. B. 71(1) Col. 3 & 4.	(i) In Col. 3, the rate of import replenishment of 30% shall be reduced to 15%. (ii) In Col. 4, item (d) shall be deleted.
10.	129	Appendix 17 Sl. No. C. 7 Col. 2	The description of the export product shall be amended to read as under:— "Fountain/ball point pens, ball point pen refills, sign pens, fibre tip pens (all types), micro tip pens, rolling-writer pens, and parts thereof, and fountain pen nibs (including

1	2	3	4	1	2	3	4
			stainless steel fountain pen nibs) filter and tips (except filter and tips of fountain pens)."				received through an authorised dealer (bank) will also be covered by the scheme".
11. 130	Appendix 17 Sl. No. C. 12 Cols. 3 & 4	(1) In Col. 3, the rate of import replenishment shall be raised from 5% to 10%. (2) The following amendments shall be made in Col. 4:— (i) The following item shall be added:— “(g) Maurices”. (ii) Against item (c) the value limit shall be reduced from “(20%)” to “(10%)”. (iii) Against item (d), the value limit of “(10%)” shall be inserted.					(ii) In para 17, in the third line, after the word “proceeds”, the following shall be added:— “or from the date of shipment where goods are supplied against advance payment”.
12. 131	Appendix 17 Sl. No. C. 14 Cols. 4 & 5	(i) In Col. 4 the value limit of “(40%)” against item (b) shall be raised to “(50%)”. (ii) In Col. 4 the following item shall be added:— “(f) CA off cuts.” (iii) In Col. 5 the following further Remarks shall be added:— “(2) Against exports of Sun-glasses under this Sl. No., import of Glare glasses will be allowed within the overall value of the licence. (2) Exporters of products covered by this Serial Number, can get themselves registered either with the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council or the Plastics and Linc-leums Export Promotion Council, for the purpose of obtaining REP benefits.”		3. Amendments made in Appendix 17, will apply to exports made on or after 1-4-1979 except in the case of import replenishment licences already issued with such items as are now deleted from Column 4 in respect of which the value limit has been reduced. 4. The following further “Errata” shall be carried out at the appropriate places indicated below:—			
Sl. No.	Page No. of	Reference	Errata	Sl. No.	Page No. of	Reference	Errata
(In continuation of Public Notice No. 35-ITC (PN)/79 dated 15-6-1979)	Policy Book, 1979-80						
1	2	3	4	1	2	3	4
111. 26		Chapter 17, Para 145	In the first line the word and brackets “(Industrial)” shall be deleted.	111. 26		Chapter 17, Para 145	In the first line the word and brackets “(Industrial)” shall be deleted.
112. 42		Appendix 2, Part ‘A’, (1) Machine Tools, entry No. 36, viz. “Spring and grinding machine”.	The word “and” in the description shall be read as “end”	112. 42		Appendix 2, Part ‘A’, (1) Machine Tools, entry No. 36, viz. “Spring and grinding machine”.	The word “and” in the description shall be read as “end”
113. 42		Appendix 2, Part ‘A’ (1) Machine Tools, Entry No. 45, viz. “Automatic Multi-station Belt/nut making machine.”	The word “Belt” in the description shall be read as “Bolt”.	113. 42		Appendix 2, Part ‘A’ (1) Machine Tools, Entry No. 45, viz. “Automatic Multi-station Belt/nut making machine.”	The word “Belt” in the description shall be read as “Bolt”.
114. 53		Appendix 3 Entry No. 257	This entry shall be corrected to read as “Hydroxy citronellal”.	114. 53		Appendix 3 Entry No. 257	This entry shall be corrected to read as “Hydroxy citronellal”.
115. 81		Appendix 5 Entry No. 460 460(13)	The existing description shall read as under:— “Woollen felts for felt calendaring machines/Shrinking Range”.	115. 81		Appendix 5 Entry No. 460 460(13)	The existing description shall read as under:— “Woollen felts for felt calendaring machines/Shrinking Range”.
116. 123		Appendix 17 Sl. No. B. 20.1 Col. 4	Item (a) shall be corrected to read as “Hydroxy citronellal”.	116. 123		Appendix 17 Sl. No. B. 20.1 Col. 4	Item (a) shall be corrected to read as “Hydroxy citronellal”.
117. 123		Appendix 17 Sl. No. B. 20.9 Col. 4	Item (b) shall be corrected to read as “Hydroxy citronellal”.	117. 123		Appendix 17 Sl. No. B. 20.9 Col. 4	Item (b) shall be corrected to read as “Hydroxy citronellal”.
118. 131		Appendix 17 Sl. No. D. 1.4 Col. 4. Item i).	The description of the item shall read as “Sodium bisulphite.”	118. 131		Appendix 17 Sl. No. D. 1.4 Col. 4. Item i).	The description of the item shall read as “Sodium bisulphite.”

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports